



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 279]
No. 279]नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 2005/फाल्गुन 28, 1926
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 2005/PHALGUNA 28, 1926पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
संशोधन

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2005

का.आ. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, का.आ. 1343(अ) दिनांक 09-12-2004, श्री वी. रामाचन्द्रन, उप जिला अधिकारी के अधिकारिता का क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के साथ "पोंडिचेरी" भी माना जायेगा।

[फा. सं. एल-14014/47/04-जी.पी.]

एस.बी. मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL
GAS
AMENDMENT

New Delhi, the 10th March, 2005

S.O. 350(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), S.O. 1343(E) dated 09-12-2004, Area of Jurisdiction of Shri V. Ramachandran, Dy. Collector shall be Tamilnadu as well as "Pondicherry".

[F. No. L-14014/47/04-G.P.]

S.B. MANDAL, Under Secy.